



18 सितम्बर 2023

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- सरकार ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूँ की स्टॉक सीमा को तत्काल प्रभाव से 3,000 टन से घटाकर 2,000 टन कर दिया है।
- भारत का वनस्पति तेल आयात अगस्त में 33% बढ़कर 1.86 मिलियन टन हो गया: एसईए।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 6.83 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 7.44 प्रतिशत थी।
- कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में मानसूनी वर्षा में 11 प्रतिशत की कमी के कारण चालू खरीफ सीजन के सितंबर 2023 के पहले सप्ताह के अंत तक दलहनों की बुआई का रकबा 8.58 प्रतिशत कम होकर 119.91 लाख हेक्टेयर रहा।
- अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन ने वर्ष 2023 की शेष अवधि के लिए वैश्विक स्तर पर

तेल भंडार में कमी की भविष्यवाणी की है। ईआईए ने अपनी अल्पकालिक ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट में 2023 की चौथी तिमाही में वैश्विक तेल भंडार में 200,000 बैरल/दिन की कमी का अनुमान लगाया है।

- भारत का औद्योगिक उत्पादन जुलाई में 5.7% बढ़ा है, जो पांच महीनों में सबसे तेज गति है।
- चिली की राज्य एजेंसी कोचिलको की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल चांदी की वैश्विक मांग में 9.4% की गिरावट आएगी, जिसका मुख्य कारण निवेश में गिरावट है, लेकिन बाजार में कमी बना रहेगी।
- एसएमएम के अनुसार, अगस्त 2023 में, चीन का एल्युमीनियम उत्पादन 3.623 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 3.9% अधिक है।
- एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, भारत ने चीन से आयातित कुछ स्टील पर पांच साल के लिए एंटी-डॉपिंग शुल्क लगा दिया है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	08.09.23	14.09.23	बदलाव (%)
कॉटनऑयलसीडकेक	2742.00	2850.00	3.94%
गुड़	1484.50	1529.50	3.03%
जौ	2019.50	2042.00	1.11%
धनिया	6926.00	6992.00	0.95%
मक्का	2085.00	2103.00	0.86%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	08.09.23	14.09.23	बदलाव (%)
ग्वारगम	12896.00	12244.00	-5.06%
ग्वारसीड	6263.00	6063.00	-3.19%
स्टील	46660.00	45210.00	-3.11%
कपास	1582.50	1559.50	-1.45%
जीरा	63475.00	62720.00	-1.19%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	08.09.23	14.09.23	बदलाव (%)
कच्चा तेल	7198.00	7453.00	3.54%
तांबा	723.30	738.40	2.09%
एल्युमीनियम	201.65	205.40	1.86%
नेचुरल गैस	246.50	249.00	1.01%
लेड	188.35	189.45	0.58%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	08.09.23	14.09.23	बदलाव (%)
निकल	1750.00	1692.90	-3.26%
मेंथा ऑयल	979.50	953.40	-2.66%
सोना गिनी	48026.00	47751.00	-0.57%
सोना पेटल	5912.00	5880.00	-0.54%
सोना एम	59213.00	58956.00	-0.43%

## साप्ताहिक समीक्षा

डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी के बावजूद, ऊर्जा और बेस मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सीआरबी इंडेक्स में तेजी का रुझान रहा। लेकिन सोने और चाँदी दोनों की कीमतों में पिछली बढ़त समाप्त हो गई। सोने की कीमतें शुक्रवार को लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट के साथ बंद हुई क्योंकि अगस्त में अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने अगले सप्ताह दरों में संभावित ठहराव के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में फिर से बढ़ोतरी के बाजार अनुमान को मजबूत किया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को अपनी प्रमुख ब्याज दर को 4% की रिकॉर्ड ऊँचाई तक बढ़ा दिया, लेकिन संकेत दिया कि यह बढ़ोतरी आखिरी हो सकती है। चिली की राज्य एजेंसी कोचिलको की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल चांदी की वैश्विक मांग में 9.4% की गिरावट आएगी, जिसका मुख्य कारण निवेश में गिरावट है, लेकिन बाजार में घाटा बना रहेगा। चांदी की औद्योगिक मांग वैश्विक हरित ऊर्जा संक्रमण से अधिक बनी हुई है। नेचुरल गैस की कीमतें साप्ताहिक स्तर पर बढ़त के साथ बंद होने सप्ताह में सफल रही लेकिन उसे 2.83 के स्तर पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। आपूर्ति के बारे में लगातार चिंता के कारण तेल की कीमतें शुक्रवार को 10 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, और यूरोप द्वारा गुरुवार को दरों में की गई बढ़ोतरी के संकेत के बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा दरों को बनाए रखने की उम्मीद के कारण तेल की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस सप्ताह कहा कि उसे उम्मीद है कि सऊदी अरब और रूस द्वारा तेल उत्पादन में कटौती से चौथी तिमाही तक बाजार में तेल की कमी हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उम्मीद से बेहतर आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ चीन द्वारा दर में कटौती के कारण स्टील सहित औद्योगिक धातुओं में खरीदारी बढ़ गई। चीन ने अपनी आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए और इस उम्मीद पर कि वैश्विक स्तर पर प्रमुख ब्याज दर वृद्धि चक्र अपने अंत के करीब है, बैंकों की नकद आरक्षित आवश्यकताओं में कटौती की, और इस उम्मीद पर कि वैश्विक स्तर पर प्रमुख ब्याज दर वृद्धि चक्र अपने अंत के करीब है।

कृषि कमोडिटीज में, स्थानीय बाजार में बढ़ती मांग के कारण हल्दी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। त्योहारी खरीदारी बढ़ने के बीच प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण उपज की सीमित उपलब्धता से कीमतों में तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने में मदद मिली। मिली-जुली खबरों के कारण जीरा की कीमतें ऊँचे स्तर पर नहीं टिक सकी। त्योहारी मांग अच्छी रही है जबकि आपूर्ति में गिरावट हुई है और जब तक नई फसल बाजार में नहीं आती तब तक आवक कम रहने की संभावना है। लेकिन, सुस्त निर्यात मांग अभी भी भारतीय व्यापारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि भारतीय जीरे की कीमतें वैश्विक बाजार में अप्रतिस्पर्धी बनी हुई हैं जिससे विदेशी मांग कम रही। छह सप्ताह की गिरावट के बाद धनिया की कीमतों में उछाल आया। हाल के महीनों में धनिया की घरेलू ही नहीं निर्यात मांग भी बढ़ी है। भारत ने जून-23 में पिछले वर्ष के 2.4 हजार टन की तुलना में लगभग 11.3 हजार टन धनिया का निर्यात किया। घरेलू बाजार में सुस्त खरीदारी के कारण कैस्टर की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुईं।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	08.09.2023	14.09.2023	बदलाव( % )
जौ	जयपुर	2,014.45	2,039.40	1.24%
चना	दिल्ली	6,424.75	6,453.10	0.44%
धनिया	कोटा	7,258.70	7,182.85	-1.04%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	781.45	776.80	-0.60%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,480.65	1,527.55	3.17%
ग्वारसीड	जोधपुर	6,355.65	6,110.80	-3.85%
ग्वारगम	जोधपुर	13,085.75	12,403.55	-5.21%
जीरा	ऊझा	60,237.70	61,348.50	1.84%
सरसों	जयपुर	5,756.50	5,793.40	0.64%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	907.50	895.00	-1.38%
सोयाबीन	इंदौर	5,053.05	5,086.35	0.66%
हल्दी	निजामाबाद	14,032.70	13,620.05	-2.94%
गेहूं	दिल्ली	2,535.70	2,565.80	1.19%
कॉटन	कड़ी	29,640.05	29,341.25	-1.01%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2,696.60	2,767.75	2.64%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	08.09.2023	14.09.2023	बदलाव( % )
एल्युमीनियम	LME	नकद	2183.50	2224.50	1.88%
तांबा	LME	नकद	8242.50	8417.50	2.12%
लेड	LME	नकद	2227.50	2245.00	0.79%
निकल	LME	नकद	20052.00	20343.00	1.45%
जिंक	LME	नकद	2443.50	2570.00	5.18%
सोना	COMEX	अक्टूबर	1933.70	1923.70	-0.52%
चांदी	COMEX	सितम्बर	22.98	22.81	-0.75%
लाइट क्रूड	NYMEX	सितम्बर	87.51	90.16	3.03%
नेचुरल गैस	NYMEX	सितम्बर	2.61	2.71	3.95%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	08.09.2023	14.09.2023	बदलाव( % )
सोयाबीन	CBOT	नवम्बर	13.63	13.60	-0.22%
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	60.50	61.72	2.02%
कॉटन	ICE	दिसम्बर	85.91	87.80	2.20%
सीपीओ	BMD	नवम्बर	3,830.00	3,761.00	-1.80%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	07.09.2023 क्वांटिटी	14.09.2023 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	0	0	0
मक्का	मी.टन	0	0	0
कैस्टर सीड	मी.टन	12003	13170	1167
चना	मी.टन	13358	13506	148
धनिया	मी.टन	30059	28588	-1471
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	17526	16741	-785
ग्वारगम	मी.टन	25340	22734	-2606
ग्वारसीड	मी.टन	87	81	-6
जीरा	मी.टन	4960	4422	-538
मक्का	मी.टन	0		432
स्टील लॉग	मी.टन	522	432	868
हल्दी	मी.टन	1680	1390	-290

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	08.09.2023 क्वांटिटी	13.09.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	559	473	-87
तांबा	मी.टन	506979	459668	-47311
सोना	किग्रा	604	604	0
सोना मिनी	किग्रा	2672	2672	0
सोना गिनी	किग्रा	654200	654200	0
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	79037	59375	-19662
चांदी एम	किग्रा	40385	40385	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 08.09.2023	स्टॉक की स्थिति 14.09.2023	अंतर
एल्युमीनियम	495875	498525	2650.00
तांबा	134525	143375	8850.00
निकल	38280	38742	462.00
लेड	52550	54100	1550.00
जिंक	141775	127450	-14325.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अक्टूबर	63175.00	31.08.23	तेजी	54000.00	60070.00	-	60000.00
NCDEX	हल्दी	अक्टूबर	14830.00	14.09.23	तेजी	14000.00	14700.00	-	14500.00
NCDEX	ग्वारसीड	अक्टूबर	6154.00	13.09.23	मंदी	6250.00	-	6480.00	6500.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अक्टूबर	6287.00	14.09.23	मंदी	6300.00	-	6370.00	6400.00
NCDEX	स्टील लांग	अक्टूबर	46800.00	16.08.23	तेजी	45200.00	45850.00	-	45800.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अक्टूबर	2850.00	02.08.23	तेजी	2400.00	2570.00	-	2550.00
MCX	मेंथा ऑयल	सितम्बर	934.80	31.08.23	तेजी	1025.00	915.00	-	910.00
MCX	बुलडेक्स	सितम्बर	15595.00	05.09.23	मंदी	15900.00	-	15970.00	16000.00
MCX	चांदी	दिसम्बर	70982.00	05.09.23	मंदी	74000.00	-	74900.00	75000.00
MCX	सोना	अक्टूबर	58588.00	29.08.23	मंदी	59400.00	-	59700.00	59800.00
MCX	तांबा	सितम्बर	737.10	06.09.23	मंदी	735.00	-	747.00	750.00
MCX	लेड	सितम्बर	188.50	13.07.23	साइडवेज	182.00	183.00	193.00	-
MCX	जिंक	सितम्बर	225.95	31.08.23	साइडवेज	220.00	215.00	235.00	-
MCX	एल्युमिनियम	सितम्बर	203.75	30.08.23	मंदी	200.00	-	209.00	210.00
MCX	कच्चा तेल	अक्टूबर	7501.00	12.07.23	तेजी	6050.00	7150.00	-	7100.00
MCX	नेचुरल गैस	सितम्बर	225.60	31.08.23	तेजी	230.00	210.00	-	208.00

\*14/09/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पज़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक कर्मोफिक हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन युद्ध को मार्किंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### तांबा ( सितम्बर ) एमसीएक्स



### तांबा ( सितम्बर ) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 757.40

निचला स्तर: 717.30

एमसीएक्स में तांबा (सितम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 14 सितम्बर 2023 को 737.10 रूप पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 734.16 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 53.178 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

748.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 720.00 रूप के टारगेट के लिए 740.00 रूप के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### कॉटनऑयलसीडकेक ( अक्टूबर ) एनसीडीईएक्स



### कॉटनऑयलसीडकेक ( अक्टूबर ) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 2757.00

निचला स्तर: 2425.00

एनसीडीईएक्स में कॉटनऑयलसीडकेक (अक्टूबर) कॉन्ट्रैक्ट 14 सितम्बर 2023 को 2704.00 रूप पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 2592.70 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 73.52 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

2900.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 2400.00 रूप के टारगेट के लिए 2750.00 रूप के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### कच्चा तेल ( अक्टूबर ) एमसीएक्स



### कच्चा तेल ( अक्टूबर ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 7518.00

निचला स्तर: 6437.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (अक्टूबर) कॉन्ट्रैक्ट 14 सितम्बर 2023 को 7227.00 रूप पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6997.08 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 76.518 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीदारी का संकेत दे रहे हैं।

7030.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 7800.00 रूप के टारगेट के लिए 7250.00 रूप के नजदीक खरीदारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

बढ़ती त्योहारी मांग के मद्देनजर स्टॉकस्टों की सक्रिय खरीदारी के बीच कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण पिछले सप्ताह हल्दी की कीमतों में तेजी रही। बुआई में धीमी प्रगति और हल्दी के रकबे में गिरावट की रिपोर्ट से कीमतों में मजबूती दर्ज की गई। अप्रैल-23-सितंबर-23 की समयवधि के दौरान हल्दी की कुल आवक 229 हजार टन दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष यह 197 हजार टन थी। वर्ष 2023 में अधिक आवक के बावजूद, बाजार में प्रीमियम गुणवत्ता की कमी के कारण हल्दी की कीमत अधिक बनी रही। बाजार में आने वाली अधिकांश आवक निम्न गुणवत्ता की थी। निर्यात में कमी के कारण बढत सीमित रहने की संभावना है। अधिक कीमतों के कारण हाल के सप्ताहों में निर्यात में गिरावट हुई है। भारत ने अप्रैल-जून-23 के दौरान पिछले वर्ष के 49.4 हजार टन की तुलना में लगभग 57.7 हजार टन का निर्यात किया। बांग्लादेश, मॉरक्को और चीन भारतीय हल्दी के सबसे बड़े खरीदार रहे। भारत ने जून-23 में पिछले वर्ष के 18.5 हजार टन के मुकाबले लगभग 18.35 हजार टन का निर्यात किया। सितंबर में तेलंगाना में मानसून की बारिश के फिर से शुरू होने से फसल की प्रगति में मदद मिलेगी, जिससे कीमतों में बढत सीमित हो जाएगी। हल्दी वायदा (अक्टूबर) की कीमतों के 13000-17500 के दायरे में रहने की संभावना है।

स्थानीय बाजार में आपूर्ति घटने के कारण जीरा वायदा की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। बढ़ती त्योहारी मांग और बाजार में गुणवत्ता वाली फसलों की सीमित उपलब्धता कीमतों में हर गिरावट के साथ मिल मालिकों को खरीदारी के लिए प्रेरित कर रही है। कीमतें वर्ष 2023 में इसके मौसमी सूचकांक के अनुरूप बढ़ीं। अप्रैल 23-सितंबर 23 के दौरान जीरे की आवक पिछले वर्ष के 121.2 हजार टन की तुलना में लगभग 94 हजार टन हुई। लेकिन, सुस्त निर्यात मांग अभी भी भारतीय व्यापारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि भारतीय जीरे की कीमतें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रहीं, जिससे विदेशी मांग कम रही। जुलाई-अगस्त के लिए आधिकारिक निर्यात आंकड़ें आने वाले हैं जिससे कीमतों का रुझान तय होगा। भारत ने जून में पिछले वर्ष के 20.4 हजार टन की तुलना में लगभग 9.2 हजार टन जीरा निर्यात किया। अप्रैल-जून 2023 के दौरान, जीरा निर्यात 2022 की समान अवधि की तुलना में 13.16% बढ़कर 53,399.65 टन तक पहुंच गया। आगे त्योहारी मांग के मद्देनजर कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा ओएनडी तिमाही में नई फसल की बुआई भी शुरू हो जाएगी, जो जीरे के लिए प्रमुख मूल्य कारक होगा। जीरा की कीमतें 58000-67000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

निर्यात मांग बढ़ने से धनिया वायदा (अक्टूबर) की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। भारत ने जून-23 में पिछले वर्ष के 2.4 हजार टन की तुलना में लगभग 11.3 हजार टन धनिया का निर्यात किया। वर्ष 2023 में चीन, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात भारतीय धनिये के प्रमुख खरीदार रहे हैं। आगे चलकर, कीमतों में मौसमी बदलाव के कारण कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। त्योहारी मांग बढ़ने की उम्मीद से कीमतों में मजबूती को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अंतिम तिमाही में नई फसल की बुआई भी शुरू हो जाएगी, जो धनिया की कीमतों के लिए प्रमुख कारक होगा। धनिया में अच्छी वापसी के मद्देनजर धनिया का उत्पादन क्षेत्र बढ़ने का अनुमान है। धनिया की कीमतों के 7000-7700 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

भारत के साथ-साथ वैश्विक बाजार में कमजोर उत्पादन संभावनाओं के कारण कपास की कीमतों में तेजी की संभावना है। 8 सितंबर तक भारत में कपास की बुआई लगभग 125 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि पिछले वर्ष 126.87 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई थी। भारत में कम रकबे की रिपोर्ट से वर्ष 2023 में कुल उत्पादन में कमी होने की संभावना है। स्थानीय बाजार में कम आवक और उभरती निर्यात पूछताछ से कीमतों में मजबूती आएगी। इसके अलावा बाजार की नजर भारत के उत्तरी और मध्य भाग में मौसम की स्थिति पर भी रहेगी। सितंबर के मध्य में भारत के उत्तरी हिस्से में हुई हाल ही में हुई बारिश से फसल की पैदावार के प्रभावित होने की संभावना है और इसका असर कपास और कपास की कीमतों में तेजी के रूप में दिखेगा। लेकिन, हाल की बारिश से गुजरात में फसल की स्थिति में सुधार हुआ है जिससे कीमतों में बड़ी बढ़त पर रोक लगेगी। एमसीएक्स पर कॉटन (नवम्बर) की कीमतों के 59500-64300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास (अप्रैल-24) वायदा की कीमतों में 1550-1670 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

घरेलू बाजार में सुस्त खरीदारी के कारण कॉटनसीडऑयलकेक (दिसम्बर) वायदा की कीमतों में गिरावट की संभावना है। लेकिन कपास के रकबे में गिरावट की रिपोर्ट से कीमतों की गिरावट पर लगाम लगेगी। कॉटनसीडऑयलकेक की मौसमी कीमत सितंबर में कीमतों में गिरावट का संकेत देती है। कॉटनसीडऑयलकेक की कीमतों के 2560-2900 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

आने वाले महीने में आवक बढ़ने की उम्मीद से ग्वारसीड (अक्टूबर) वायदा की कीमतों में मिला-जुला कारोबार होने की उम्मीद है। सितंबर के अंत तक नयी आवक में सुधार होने की उम्मीद है जिससे बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ेगा। स्टॉकस्टों द्वारा नई फसल शुरू होने से पहले अपना स्टॉक उतारने की भी उम्मीद है जिससे कीमतों पर दबाव पड़ेगा। लेकिन, कमजोर उत्पादन अनुमान और ग्वाराम की मौसमी निर्यात मांग में अनुमानित वृद्धि से कीमतों में बड़ी गिरावट पर अंकुश लगेगा। वर्ष 2023 में ग्वार का उत्पादन क्षेत्र पहले से ही 10% -12% कम हो गया है और अब उपज की धूमिल संभावना के कारण उत्पादन में कमी आने की संभावना है। ग्वार उत्पादों की मांग बढ़ी है जिससे ग्वार की कीमतों को समर्थन मिलेगा। ग्वारसीड की कीमतों को 6700 के करीब रजिस्ट्रस का सामना करने की संभावना है जबकि सपोर्ट 5850 पर रहने की संभावना है। ग्वाराम की कीमतें 11400-14500 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

भौतिक बाजार में सक्रिय मांग के कारण मेंथा ऑयल (सितंबर) वायदा की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। मेंथॉल के लिए उभरती ताजा निर्यात पूछताछ के कारण स्टॉकस्ट खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं। कम रकबा के कारण वार्षिक आधार पर मेंथा ऑयल का कुल उत्पादन कम होने की संभावना है, जिससे कीमतों में गिरावट पर अंकुश लगेगा। मेंथा ऑयल की कीमतें 905-1010 के दायरे में रहने की संभावना है।

गुजरात में अरंडी के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की रिपोर्ट के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। अरंडी के तहत अधिक क्षेत्र की रिपोर्ट से कीमतों पर दबाव रहेगा क्योंकि 8 सितंबर तक पूरे भारत में लगभग 9.00 लाख हेक्टेयर में अरंडी की बुआई की गई थी, जबकि पिछले वर्ष 7.26 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। अरंडी (अक्टूबर) वायदा की कीमतों के 5900-6600 के दायरे में रहने की संभावना है।

### सर्पिका

सोने की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 57500-59000 के दायरे में साइडवेज कारोबार कर सकती हैं क्योंकि आगामी दिनों में अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना काउंटर पर दबाव डाल सकती है, जबकि केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीदारी जारी रहने और दुनिया के शीर्ष सर्पिका उपभोक्ता चीन में बेहतर आर्थिक आंकड़ों के बाद रिकवरी की उम्मीदों से कीमतों को कुछ मदद मिल सकती है। चीन का केंद्रीय बैंक फिर से अपनी मौद्रिक नीति को आसान बना रहा है, और इस बार बैंकों के लिए आरक्षित आवश्यकता अनुपात में 0.25% की कटौती की गई है। इससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा। अनुमान से अधिक अमेरिकी उत्पादक कीमतों और खुदरा बिक्री के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है, जिससे अमेरिकी ब्याज दरों के लंबे समय तक अधिक रहने की संभावना है, और डॉलर और बांड यील्ड में वृद्धि होगी। अगस्त में अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों में 14 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जिससे अगले सप्ताह संभावित रोक के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में फिर से बढ़ोतरी की संभावना बरकरार है। लेकिन सीएमई के फेडवॉच टूल के अनुसार, बाजार इस बात पर विचार कर रहा है कि फेड अगले सप्ताह अपनी नीति बैठक में दरों को अपरिवर्तित रखेगा, और नवंबर में दर में वृद्धि की 39% संभावना है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी अपनी प्रमुख ब्याज दर को 4% की रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़ा दिया, लेकिन संकेत दिया कि यह बढ़ोतरी संभवतः आखिरी होगी। कॉमेक्स में सोने की कीमतें 1880-1945 डॉलर के बीच कारोबार कर सकती हैं। चांदी की कीमतों के 68500-73000 के बीच कारोबार करने की संभावना है। चिली की राज्य एजेंसी कोचिल्लो की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल चांदी की वैश्विक मांग में 9.4% की गिरावट आएगी, जिसका मुख्य कारण निवेश में गिरावट है, लेकिन बाजार में घाटा बना रहेगा। चांदी की औद्योगिक मांग वैश्विक हरित ऊर्जा संक्रमण से अधिक बनी हुई है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

प्रमुख तेल उत्पादकों सऊदी अरब और रूस की ओर से आपूर्ति बाधाओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन दोनों ने बाजार में संभावित कमी पर चिंता व्यक्त की है जो वर्ष के अंत तक जारी रह सकती है। इस चेतावनी के कारण तेल की कीमतों में हाल ही में उछाल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवंबर 2022 की शुरुआत के बाद से कच्चे तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रही हैं। नवीनतम दौर में बढत तब हुई, जब चीन ने कहा कि वह स्थानीय बैंकों के लिए आरक्षित आवश्यकता अनुपात में 25 आधार अंकों की कटौती करेगा-जो इस साल इस तरह की दूसरी कटौती है। इस कदम से चीनी अर्थव्यवस्था में अधिक लिक्विडिटी जारी होने और संभावित रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पिछले 52 सप्ताहों में ड्रिलिंग रिगों में 17% की गिरावट के कारण हाल के महीनों में अमेरिकी कच्चे तेल का उत्पादन भी कम हो गया है। लेकिन ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली से इनकार नहीं किया जा सकता। कच्चे तेल की कीमतें 7100-7900 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। अगले सप्ताह अमेरिका के गर्म तापमान के पूर्वानुमान से एयर कंडीशनिंग चलाने के लिए बिजली प्रदाताओं की ओर से नेचुरल गैस की मांग बढ़ेगी, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कमोडिटी वेदर ग्रुप ने कहा कि अगले सप्ताह मध्य अमेरिका में औसत से अधिक तापमान देखा जाएगा। नेचुरल गैस की कीमतों को ऑस्ट्रेलिया में श्रमिकों के प्रदर्शन के कारण से भी समर्थन मिला है। ऑस्ट्रेलिया में शेनरॉन कंपनी के प्रमुख साइटों पर एलएनजी श्रमिकों के साथ बातचीत किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहने के बाद पिछले सप्ताह आंशिक हड़ताल शुरू कर दी। उपयोगिता प्रदाताओं की ओर से प्रमुख गैस की मांग के लिए अमेरिकी बिजली उत्पादन में वृद्धि संभव है। एडिसन इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट ने बताया कि 9 सितंबर को समाप्त सप्ताह में अमेरिकी बिजली का कुल उत्पादन सालाना 8.4% बढ़कर 90,200 गीगावाट घंटे हो गया। नेचुरल गैस की कीमतें 210-245 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं, क्योंकि बढ़ते भंडार और शीर्ष उपभोक्ता चीन से मांग को लेकर एक अस्पष्ट दृष्टिकोण काउंटर पर दबाव डाल सकता है, लेकिन आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए चीन द्वारा आगे की नीति की उम्मीद से धातु की कीमतों को समर्थन मिल सकता है। चीन का औद्योगिक उत्पादन अगस्त में एक साल पहले की तुलना में 4.5% बढ़ा है, जो जुलाई में 3.7% की गति से अधिक है। चीन के केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह इस साल दूसरी बार लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा रिजर्व के रूप में रखी जाने वाली नकदी की मात्रा-आवास की मांग को बढ़ाने के कदमों सहित प्रोत्साहन उपायों की श्रृंखला में नवीनतम-में कटौती करेगा तांबे की कीमतें 710-740 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। जुलाई-सितंबर में तेज वृद्धि के बाद, एलएमई-पंजीकृत गोदामों में तांबे का स्टॉक अक्टूबर 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। जिंक की कीमतें 215-240 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एलएमई पर तीन महीने के कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में निकट अवधि की डिलीवरी के लिए जिंक पर छूट मार्च 2021 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो प्रचुर मात्रा में तत्काल आपूर्ति का संकेत देती है। लेड की कीमतें 185-193 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 197-210 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। शुक्रवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में चीन का प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन एक साल पहले के उच्चतम मासिक स्तर से 3.1% बढ़ गया, क्योंकि जलविद्युत उत्पादन में सुधार के बाद युन्नान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में उत्पादन में वृद्धि जारी रही। एलएमई-अनुमोदित गोदामों में रूसी मूल के एल्युमीनियम का स्टॉक जो बाजार में उपलब्ध है, इस साल अगस्त में कुल स्टॉक का 81% तक बढ़ गया है, जो जनवरी में 41% था। स्टील लॉन्ग वायदा (अक्टूबर) की कीमतों के 46000-47800 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। बढ़ती घरेलू मांग, कोकिंग कोयले की बढ़ती कीमतें और चीन में उत्पादन संबंधी बाधाओं के कारण कीमतों में गिरावट पर रोक लगाने की संभावना है।

## वैश्विक ऑटो बिक्री.....बेस मेटल का संबल

मोटर वाहन क्षेत्र के लिए ऑटो की बिक्री सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। अधिक ऑटो बिक्री से वाहन निर्माताओं की बिक्री और आय में वृद्धि होती है, जो तब ऑटो पुर्जा निर्माताओं को अधिक से अधिक ऑर्डर देते हैं। 20 वीं शताब्दी के अधिकांश समय में ऑटो की बिक्री लगातार बढ़ी।

मोटर वाहन क्षेत्र एक चक्र्रीय व्यवसाय है, इसलिए आर्थिक गतिविधियों के बेहतर होने पर मोटर वाहन क्षेत्र में बिक्री अधिक होती है और लोग अपने भविष्य की आर्थिक संभावनाओं के बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं। इस माहौल में, अधिक लोगों द्वारा ऑटोमोबाइल जैसी चीजों की अधिक खरीदारी करने की संभावना होती है। मोटर वाहन की बिक्री बेस मेटल की मांग के मुख्य कारणों में से एक है क्योंकि इसका उपयोग कार निर्माण में किया जाता है। ऑटोमोबाइल बिक्री के बेहतर आंकड़ों बेस मेटल की मांग में वृद्धि का संकेत देते हैं।

### वैश्विक स्तर पर ऑटो बिक्री

एसएंडपी ग्लोबल मोबिलिटी के अनुसार, वैश्विक स्तर पर हल्के वाहन की बिक्री 2023 में 4.8% बढ़कर 85.0 मिलियन यूनिट होने की उम्मीद है। यह वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण होने की संभावना से है।

आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में वृद्धि वैश्विक स्तर पर हल्के वाहन बाजार का एक प्रमुख कारक होने की उम्मीद है। 2023 में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री 12.5 मिलियन यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2022 में 9.6 मिलियन यूनिट थी। यह वृद्धि सरकारी नीतियों, जैसे उत्सर्जन नियमों, के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती उपलब्धता के कारण हुई है।

**अमेरिका:** एसएंडपी ग्लोबल मोबिलिटी के अनुसार, 2023 में अमेरिकी ऑटो बिक्री 1.5% घटकर 13.5 मिलियन यूनिट होने की उम्मीद है। यह गिरावट कई कारकों के कारण हो रही है, जिनमें वर्तमान समय में चिप की कमी, बढ़ती ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और यूक्रेन में युद्ध शामिल हैं, जिससे स्टील और एल्युमीनियम जैसी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिनका उपयोग कारों में किया जाता है।

**चीन:** चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स के अनुसार, 2023 में चीन में ऑटोमोबाइल की बिक्री 6.7% बढ़कर 28.3 मिलियन यूनिट होने की उम्मीद है। यह वृद्धि चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण हुई है। 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 6.3 मिलियन यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2022 के 3.5 मिलियन यूनिट से अधिक है। यह वृद्धि सरकारी नीतियों, जैसे उत्सर्जन नियमों, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती उपलब्धता के कारण हुई है।

**यूरोप:** यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार, 2023 में यूरोप में ऑटोमोबाइल की बिक्री 3.7% बढ़कर 11.3 मिलियन यूनिट होने की उम्मीद है। 2023 में यात्री कारों की बिक्री 4.0% बढ़कर 9.9 मिलियन यूनिट होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक वाहन की बिक्री 2.5% बढ़कर 1.4 मिलियन यूनिट होने की उम्मीद है।

**जापान:** जापान ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार, 2023 में जापान में ऑटोमोबाइल की बिक्री 2.3% घटकर 4.1 मिलियन यूनिट होने की उम्मीद है। यह गिरावट वर्तमान समय में चिप की कमी के कारण हो रही है। लेकिन जापानी सरकार ने एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है जिसमें ऑटोमोबाइल उद्योग को समर्थन देने के उपाय शामिल हैं।

**भारत:** डीलरों के संगठन एफएडीए की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में भारत में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों सहित सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। सभी फंडों में कुल खुदरा बिक्री पिछले महीने 18,18,647 इकाइयों तक पहुंच गई, जो अगस्त 2022 की तुलना में नौ प्रतिशत की वृद्धि है, जब यह आंकड़ा 16,74,162 इकाई था। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग 8-10% बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि कमजोर मानसून का मौसम इस वृद्धि को पटरी से उतार सकता है।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बायबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एगेंसिटी द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**डिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्तुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं क्लिप भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बढ़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।